

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 343]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 1968/भाद्र 29, 1890

No. 343]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 1968/BHADRA 29, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September 1968

S.O. 3394.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 3226, dated the 8th September, 1967, namely:—

In the said notification, for serial No. 4 and the entries relating thereto the following serial No. and entries shall be substituted, namely:—

“4. Export Inspection Agency, Bombay, ‘Mani Mahal’, 2nd floor, 11/21, Mathew Road, Bombay-4”.

[No. 60(157)Exp.Insp/66.]

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

(1047)

